



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 2022

अग्रहायण 25, 1944 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1

संख्या 12/2022/1469/94-1-2022-312(125)-2022

लखनऊ, 16 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

प०आ०-1050

सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2016) की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) के उपबन्धों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके तथा इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या 13(4)/2020-ईजी-II (वॉल्यूम-IV) दिनांक 2 नवम्बर, 2022 के माध्यम से दिए गए अनुमोदन के अनुसरण में राज्यपाल, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया में पक्षकारों की पहचान, उनकी सहमति से, किये जाने के प्रयोजन के लिए उक्त पत्र में विहित रीति से आधार अधिप्रमाणन की प्रक्रिया अपनाये जाने की अनुज्ञा प्रदान करती हैं।

2-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के उपबन्धों के अधीन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया में आधार अधिप्रमाणन हेतु पक्षकारों की सहमति प्राप्त करने की पद्धति, महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित की जायेगी।

आज्ञा से,
वीना कुमारी,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 12/2022/1469/94-1-2022-312(125)-2022, dated December 16, 2022.

No. 12/2022/1469/94-1-2022-312(125)-2022

Dated Lucknow, December 16, 2022

IN exercise of the powers under the provisions of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other subsidies, benefits and services) Act, 2016 (Act no. 18 of 2016) *read* with rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, and in pursuance of the approval given by the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, through letter no. 13(4)/2020-EG-II (vol.-IV) dated November 2, 2022, the Governor, for the purpose of identifying the parties with their consent in the process of registration of documents under the Registration Act, 1908, permits the procedure of Aadhaar authentication to be adopted in the manner prescribed in the said letter.

2. In the process of registration of documents under the provisions of the Registration Act, 1908, the system of obtaining consent of the parties for Aadhaar authentication shall be established by the Inspector General of Registration, Uttar Pradesh.

By order,

VEENA KUMARI,

Pramukh Sachiv.